



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1934 (श०)
(सं० पटना 591) पटना, शुक्रवार, 2 नवम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

30 अक्टूबर 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-26/2012/9725—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना-4 के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी उक्त बैंक के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता/ उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त बैंक का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 591-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>